


903

7426/19

32



Jagdish



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL


Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP05911041692063R  
 Certificate Issued Date : 09-Apr-2019 04:18 PM  
 Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0107047726923568R  
 Purchased by : DINESH S O FEKURAM  
 Description of Document : Article 23 Conveyance  
 Property Description : GATA NO.903, AREA-0.0345 HEC. SITUATED AT VILL-BAKKAS, PARGANA TEHSIL-MOHANLALGANJ, LUCKNOW.  
 Consideration Price (Rs.) : 2,49,000  
 (Two Lakh Forty Nine Thousand only)  
 First Party : JAGDEESH S O RAMDEEN  
 Second Party : DINESH S O FEKURAM  
 Stamp Duty Paid By : DINESH S O FEKURAM  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 17,700  
 (Seventeen Thousand Seven Hundred only)


2019202010783

STAMP PAPER USED

Sub Registrar (Mohanlalganj)  
Lucknow U.P.

Please write or type below this line

जगदीश



दिनेश



0008417827

## Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



प्रस्तुतकर्ता अभिवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक मोहनलालसं लखनऊ क्रम 2019/2320100  
 आवेदन संख्या : 201900822009510  
 लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2019-04-11 00:00:00  
 प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम दिनेश  
 लेख का प्रकार विक्रय पत्र  
 प्रतिफल की छनराशि 249000 / 249000  
 1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 4980  
 2. प्रतिनिधित्व शुल्क 60  
 3. निरीक्षण या तलाश शुल्क  
 4. मुहलार के अधिप्रमाणीकरण लिए शुल्क  
 5. कमीशन शुल्क  
 6. विविध  
 7. यात्रिक भत्ता  
 1 से 6 तक का योग 5040  
 शुल्क बमूल करने का दिनांक 2019-04-11 00:00:00  
 दिनांक जब लेख प्रतिनिधि या तलाश  
 प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2019-04-11 00:00:00  
 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर





(2)



विक्रय मूल्य - रू0 2,49,000/-  
मालियत - रू0 2,48,400/-  
स्टाम्प - रू0 17,700/-  
परगना - मोहनलालगंज

### विक्रय विलेख

#### विक्रय विलेख का संक्षिप्त विवरण:-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - मोहनलालगंज
3. मोहल्ला/ग्राम - बककास
4. सम्पत्ति का विवरण- खसरा संख्या-903 का भाग
5. मापन की इकाई - हेक्टेअर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल- 0.0345 हेक्टेअर
7. सड़क की स्थिति-(परिशिष्ट के अनुसार)  
- सुल्तानपुर रोड से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर।
8. अन्य विवरण (सम्पर्क/खड़ण्जा/जनपदीय मार्ग इत्यादि)-नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
11. पेड़ों का मूल्यांकन - X
12. बोरिंग/कुआं/अन्य - X
13. निर्माण का वर्ष - X
14. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है- नहीं
15. प्रतिफल की धनराशि 2,49,000/- रुपये

#### चौहद्दी


पूरब : भूमि खसरा संख्या-902  
पश्चिम : भूमि खसरा संख्या-884  
उत्तर : भूमि खसरा संख्या-901  
दक्षिण : भूमि खसरा संख्या-904

प्रथम पक्ष की संख्या (1) द्वितीय पक्ष की संख्या (1)  
तृतीय पक्ष की संख्या (1)

जाकिरा

क्रमशः .....

दिनेश



विक्रेता/प्रथम पक्ष का विवरण

जगदीश पुत्र रामदीन, निवासी-ग्राम-गनियार, मजरा-भौंदरी, जिला-लखनऊ, उ०प्र०।

पुष्टिकर्ता/द्वितीय पक्ष का विवरण

मेसर्स श्री राज इन्फ्राहाउसिंग प्रा०लि०, पंजीकृत कार्यालय पता-3/324, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ०प्र० द्वारा अद्योहस्ताक्षरी गौरव कुमार शुक्ला पुत्र श्री दिलीप कुमार शुक्ला, निवासी-म०नं०-3, कसतसुखदेव, सुकरौली, गोरखपुर, उ०प्र०।

क्रेता/तृतीय पक्ष का विवरण

दिनेश पुत्र फेकूराम, निवासी-ग्राम-हरदीपुर, तहसील-सदर, जिला-जौनपुर, उ०प्र०।

यह विक्रय विलेख जगदीश पुत्र रामदीन, निवासी-ग्राम-गनियार, मजरा-भौंदरी, जिला-लखनऊ, उ०प्र०, (जिसे आगे इस विलेख में विक्रेता/प्रथम पक्ष कहा गया है) एवं मेसर्स श्री राज इन्फ्राहाउसिंग प्रा०लि०, पंजीकृत कार्यालय पता-3/324, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ०प्र० द्वारा अद्योहस्ताक्षरी गौरव कुमार शुक्ला पुत्र श्री दिलीप कुमार शुक्ला, निवासी-म०नं०-3, कसतसुखदेव, सुकरौली, गोरखपुर, उ०प्र० (जिसे आगे इस विलेख में पुष्टिकर्ता/द्वितीय पक्ष कहा गया है) के द्वारा दिनेश पुत्र फेकूराम, निवासी-ग्राम-हरदीपुर, तहसील-सदर, जिला-जौनपुर, उ०प्र० (जिसे आगे इस विलेख में क्रेता/तृतीय पक्ष कहा गया है) के पक्ष में निष्पादित किया गया है।

जो कि विक्रेता खाता संख्या-01130, भूमि खसरा संख्या-903 रकबा 0.0690 हेक्टेयर का 1/2 भाग अर्थात् 0.0345 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम-बक्कास, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है। उक्त भूमि को विक्रेता/प्रथम पक्ष ने रामनन्द से पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से दिनांक 16.12.2013 को

जगदीश

गौरव

क्रमशः .....

दिनेश

.....  
.....



क्रय किया है जो कार्यालय उपनिबन्धक-मोहनलालगंज, लखनऊ के अभिलेखों में बही संख्या-1 जिल्द संख्या-4257 के पृष्ठ संख्या-367/384 पर क्रमांक-16260 पर दिनांक 16.12.2013 को पंजीकृत है और राजस्व अभिलेखों में विक्रेता/प्रथम पक्ष के संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज है।

विदित हो कि पुष्टिकर्ता/द्वितीय पक्ष ने क्रेता/तृतीय पक्ष को उक्त ग्राम में भूमि क्रय कराने का दायित्व स्वीकार किया था। क्रेता/तृतीय पक्ष के अनुरोध पर प्रस्तुत विक्रय विलेख में पुष्टिकर्ता/द्वितीय पक्ष के रूप में सम्मिलित किया गया है।


उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों, अजकिस्म, रेहन, बंधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा, ऋण आदि से पूर्णतया बरी व पाक-साफ है, जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार विक्रेता को प्राप्त है। अब अपनी राजीखुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बजरूरत होशो हवास में उपरोक्त वर्णित भूमि नम्बरी व पैमायशी को बकीमती मुबलिग रूपया-2,49,000/- (दो लाख उन्चास हजार रूपया मात्र) जिसके आधे रूपया-1,24,500/- (एक लाख चौबीस हजार पाँच सौ रूपया मात्र) होते हैं, में बदस्त क्रेता उपरोक्त के पक्ष में विक्रय कर दिया यानि बेच दिया और कुल विक्रय मूल्य क्रेता से पुष्टिकर्ता/द्वितीय पक्ष द्वारा वसूल पाकर कब्जा दखल मालिकाना विक्रेता ने अपने ही समान क्रेता उपरोक्त का बखूबी करा दिया। अब आज की तारीख के बाद से विक्रेता या उनके किसी वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में क्रेता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बैनामें के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति

जि.के.ए. (2)

*gaur*

क्रमशः .....


दिनेश



की दावेदारी या उज्रदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले, मित्कियत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाए, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित विक्रेता व उसके वारिसान व कायम मुकामान की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे, विक्रेता को कोई मुकाम उज्र का न होगा। अब आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त विक्रीत भूमि को समस्त सरकारी अभिलेखों में जहाँ उचित समझे अपने नाम दर्ज करा लेवे, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

विदित हो कि यदि कोई व्यक्ति, संस्था या विक्रेता/प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी उक्त भूमि के सम्बन्ध में विक्रेता/प्रथम पक्ष के माध्यम से अथवा स्वतंत्र रूप से किसी प्रकार का कोई दावा अथवा अधिकार प्रस्तुत करता है तो ऐसा दावा अथवा अधिकार प्रस्तुत विक्रय विलेख के आधार पर विधि विरुद्ध व शून्य होगा। यदि विक्रेता/प्रथम पक्ष के उक्त भूमि के सम्बन्ध में साम्पत्तिक अधिकारों में कोई त्रुटि अथवा दोष पाया जाता है तथा उक्त त्रुटि अथवा दोष के आधार पर क्रेता/तृतीय पक्ष उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग अथवा उससे सम्बन्धित किसी साम्पत्तिक अधिकार से वंचित हो जाती है तो विक्रेता/प्रथम पक्ष व पुष्टिकर्ता/द्वितीय पक्ष, क्रेता/तृतीय पक्ष को कारित हुई उक्त क्षति की सम्पूर्ण धनराशि मय हर्जा खर्चा की क्षतिपूर्ति अस्तित्व में पायी जाने वाली विक्रेता/प्रथम पक्ष एवं उनके वारिसान तथा पुष्टिकर्ता/द्वितीय पक्ष की अन्य चल व अचल सम्पत्तियों से करने हेतु विधिक रूप से बाध्य होंगे और

जि.जि.दि.श



क्रमशः .....

दि.ने.श



इसमें विक्रेता/प्रथम पक्ष व पुष्टिकर्ता/द्वितीय पक्ष या उनके वारिसानों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

विदित हो कि विक्रेता/प्रथम पक्ष व पुष्टिकर्ता/द्वितीय पक्ष, क्रेता/तृतीय पक्ष को वचन देते हैं कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में क्रेता/तृतीय पक्ष द्वारा भविष्य में भूमि की नपाई कराने में व नामान्तरण इत्यादि वांछित कार्यवाहियों में आवश्यकता पड़ने पर व अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे एवं किसी प्रकार की कोई हीला हवाली नहीं करेंगे। यदि क्रेता/तृतीय पक्ष के नामान्तरण नहीं हो पाता है तो ऐसी दशा में विक्रेता/प्रथम पक्ष व पुष्टिकर्ता/द्वितीय पक्ष संयुक्त व अलग-अलग समस्त हर्जे-खर्चे के जिम्मेदार होंगे।

विदित हो कि इस विक्रय विलेख में दर्शित विक्रय मूल्य का भुगतान पुष्टिकर्ता/द्वितीय पक्ष द्वारा विक्रेता/प्रथम पक्ष को अदा किया जायेगा, जिससे क्रेता/तृतीय पक्ष को कोई वास्ता व सरोकार न होगा।

विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि में कोई कुआँ या ट्यूबवेल या इमारत आदि नहीं है तथा 200 मीटर त्रिज्या के अन्दर कोई निर्माण या आबादी/आवासीय गतिविधियाँ विद्यमान नहीं है। विक्रीत भूमि पर कोई पेड़ आदि नहीं लगा है और उक्त भूमि कृषि भूमि है। विक्रेता/प्रथम पक्ष व क्रेता/तृतीय पक्ष दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं किन्तु पुष्टिकर्ता/द्वितीय अनुसूचित जाति से भिन्न जाति का सदस्य है।

विक्रीत भूमि ग्राम-बक्कास, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ के अर्द्धनगरीय क्षेत्र में स्थित है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल-0.0345 हेक्टेयर है, जिसकी मालियत श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा जारी मूल्यांकन सूची के अनुसार रूपया-72,00,000/- प्रति

(50/12/12)

*[Handwritten Signature]*

क्रमशः .....

*[Handwritten Signature]*



हेक्टेयर की दर से निर्धारित है। विक्रीत भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग, राजकीय मार्ग, जनपदीय मार्ग व सम्पर्क मार्ग पर स्थित नहीं है। अतः निर्धारित दर के अनुसार विक्रीत भूमि की कुल सरकारी मालियत मुबलिग रूपया-2,48,400/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य के कम है। अतः विक्रय मूल्य पर शासकीय शासनादेश संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-स.वि.क.नि.5-2756/11-2008-500(165)/2007 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से रूपया-17,430/- का स्टाम्प शुल्क देय होता है। चूंकि इस विक्रय विलेख में पुष्टिकर्ता/द्वितीय पक्ष है अतः 250/- रूपया का अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क देय है। इस प्रकार इस विक्रय विलेख में कुल रूपया-17,700/- का स्टाम्प शुल्क ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र संख्या-IN-UP05911041692063R दिनांक 09.04.2019 के माध्यम से अदा किया गया है। क्रेता/तृतीय पक्ष व विक्रेता/प्रथम पक्ष के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा बय पंजीकृत नहीं किया गया है। उक्त विक्रीत भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। विक्रेता/प्रथम पक्ष व पुष्टिकर्ता/द्वितीय पक्ष एवं क्रेता/तृतीय पक्ष का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्तानुसार है। विक्रीत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की किसी भी योजना में अधिग्रहीत नहीं की गई है और न ही प्रस्तावित है।

विदित हो कि उक्त विक्रय विलेख के निष्पादन एवं पंजीकरण हेतु स्टाम्प शुल्क एवं अन्य विधिक खर्चों को क्रेता/तृतीय पक्ष द्वारा वहन किया गया है। इसमें पुष्टिकर्ता/द्वितीय पक्ष को कोई वास्ता व सरोकार नहीं है।

लिहाजा यह बैनामा समक्ष गवाहान उभय पक्षों ने खूब सोच समझ कर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदुरुस्त होशोहवास व स्वस्थ चित्त मन से अपने-अपने हस्ताक्षर करके

5/1/21

*(Handwritten signature)*

क्रमशः .....

दिनेश



निष्पादित कर पंजीकृत करा दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे। प्रस्तुत विक्रय विलेख विक्रेता/प्रथम पक्ष व पुष्टिकर्ता/द्वितीय पक्ष एवं क्रेता/तृतीय पक्ष के बताये गये तथ्यों एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विक्रेता/प्रथम पक्ष व पुष्टिकर्ता/द्वितीय पक्ष एवं क्रेता/तृतीय पक्ष की होगी। टाईपकर्ता एवं मसविदाकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

### विवरण भूमि बिक्रीशुदा

खाता संख्या-01130, भूमि खसरा संख्या-903 रकबा 0.0690 हेक्टेयर का 1/2 भाग अर्थात् 0.0345 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम-बक्कास, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ।



### चौहद्दी

पूरब : भूमि खसरा संख्या-902  
पश्चिम: भूमि खसरा संख्या-884  
उत्तर : भूमि खसरा संख्या-901  
दक्षिण : भूमि खसरा संख्या-904

### तफसील वसूलयाबी जरसमन

1. रूपया-2,49,000/- बजरिये चेक संख्या-001296 दिनांक 10.04.2019 अदाता आन्धा बैंक, शाखा-गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रूपया-2,49,000/- (दो लाख उन्चास हजार रूपया मात्र) विक्रेता/प्रथम पक्ष ने पुष्टिकर्ता/द्वितीय पक्ष से विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व उपरोक्तानुसार प्राप्त कर लिया है। अब कोई भी धनराशि

क्रमशः .....

दिनेश

आवेदन सं०: 201900822009510

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 7426

वर्ष: 2019


प्रतिफल- 249000 स्टाम्प शुल्क- 17700 बाजारी मूल्य - 249000 पंजीकरण शुल्क - 4980 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 5040

श्री दिनेश,  
पुत्र श्री फेकूराम  
व्यवसाय : कृषि  
निवासी: ग्राम हरदीपुर, तहसील सदर, जिला जौनपुर, उ०प्र०

दिनेश



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 11/04/2019 एवं 01:14:49 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

अशोक कुमार गुप्ता प्रभारी  
उप निबंधक :मोहनलालगंज


लखनऊ  
11/04/2019

कमलेश कुमार पाठक  
निबंधक लिपिक


विक्रीत आराजी से सम्बन्धित क्रेता से विक्रेता को पाना शेष नहीं रहा।

लखनऊ।


दिनांक : 09.04.2019



1. गवाह :

सुनील शुक्ला   
पुत्र श्री देवनाथ शुक्ला  
पता : 286/33, निवाज खेड़ा,  
मोती नगर, लखनऊ।


ह0 विक्रेता/प्रथम पक्ष



( जगदीश )

पैन-BCSPJ4713Q

ह0 पुष्टिकर्ता/द्वितीय पक्ष



2. गवाह :

विपिन शुक्ला  
पुत्र श्री सूर्य नरायन शुक्ल  
पता:ग्राम-खोईरी, जौनपुर।


( गौरव कुमार शुक्ला )

अधोहस्ताक्षरी

मेसर्स श्री राज इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा0लि0

पैन-AATCS2037F


ह0 क्रेता/तृतीय पक्ष



( दिनेश )

पैन-CKJPD6156P


टाइपकर्ता



(अनिल बालाजी)

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

मसविदाकर्ता



(मुकेश मणि त्रिपाठी)

एडवोकेट

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 7426

वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री जगदीश, पुत्र श्री रामदीन

निवासी: ग्राम गनियार, मजरा भौदरी, जिला लखनऊ, उ०प्र०

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 2

*जगदीश*




श्री मेसर्स राज इन्फ्राहाउसिंग प्रा०लि० (पुष्टिकर्ता) के द्वारा गौरव कुमार शुक्ला, पुत्र श्री दिलीप कुमार शुक्ला

निवासी: म०नं० 3, कसतसुखदेव, सुकरौखी, गोरखपुर, उ०प्र०

व्यवसाय: नौकरी

विक्रेता: 1

*गौरव*



श्री दिनेश, पुत्र श्री फेकूराम

निवासी: ग्राम हरदीपुर, तहसील सदर, जिला जौनपुर, उ०प्र०

व्यवसाय: कृषि

*दिनेश*



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री सुनील शुक्ला, पुत्र श्री देवनाथ शुक्ला

निवासी: 280/43, नियाज खेड़ा, मोती नगर, लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 1

*SA-9*



श्री विपिन शुक्ला, पुत्र श्री सूर्य नारायण शुक्ल

निवासी: ग्राम खौईसी, जौनपुर

व्यवसाय: नौकरी

*विपिन*



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।  
टिप्पणी:


अशोक कुमार गुप्ता प्रभारी  
उप निबंधक: मोहनलालगंज


लखनऊ

कमलेश कुमार पाठक  
निबंधक लिपिक

## सम्पत्ति का मानचित्र

खाता संख्या-01130, भूमि खसरा संख्या-903 रकबा 0.0690 हेक्टेयर का 1/2 भाग अर्थात् 0.0345 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम-बक्कास, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ।






विक्रेता के हस्ताक्षर



पुष्टिकर्ता के हस्ताक्षर

क्रेता के हस्ताक्षर



आवेदन सं०: 201900822009510

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10266 के पृष्ठ 221 से 240 तक क्रमांक  
7426 पर दिनांक 11/04/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अशोक कुमार गुप्ता प्रभारी  
उप निबंधक : मोहनलालगंज  
लखनऊ  
11/04/2019